



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2011/आश्विन 26, 1933

No. 206]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2011/ASVINA 26, 1933

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2011

फा. सं. 6 (1)/95-नाल्सा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10 के साथ पठित सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 9 फरवरी, 2000 की अपनी अधिसूचना सं. का.आ. 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1. “न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी —अध्यक्ष”

न्यायाधीश, भारत उच्चतम न्यायालय

यू. शरतचन्द्रन, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/123/11/असा.]

पाद टिप्पण :—उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का.आ. 115(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 25 फरवरी, 2000, 20 अगस्त, 2000, 22 नवम्बर, 2001, 29 मई, 2002, 1 जनवरी, 2003, 10 अप्रैल, 2003, 25 सितम्बर, 2003, 8 मार्च, 2004, 8 जून, 2004, 18 जुलाई, 2005, 11 नवम्बर, 2005, 11 जुलाई, 2006, 15 फरवरी, 2007, 21 अक्टूबर, 2008, 13 मई, 2009, 11 अगस्त, 2009 एवं 18 जनवरी, 2010 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की गई हैं।

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2011

F. No. 6(1)/95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authority Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Authority hereby nominates Mr. Justice Dalveer Bhandari, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee and makes the following amendments in its Notification No. S.O. 115(E) dated the 9th February, 2000, namely :—

In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1. “Mr. Justice Dalveer Bhandari —Chairman”
Judge, Supreme Court of India.

U. SARATHCHANDRAN, Member-Secy.

[ADVT. III/4/123/11/Exty.]

Foot Notes :—The principal notification constituting the Supreme Court Legal Services Committee was published vide S.O. 115(E), dated 9th February, 2000 and was subsequently amended vide Notifications dated 25th February, 2000, 20th August, 2000, 22nd November, 2001, 29th May, 2002, 1st January, 2003, 10th April, 2003, 25th September, 2003, 8th March, 2004, 8th June, 2004, 18th July, 2005, 11th November, 2005, 11th July, 2006, 15th February, 2007, 21st October, 2008, 13th May, 2009, 11th August, 2009 and 18th January, 2010.